



January 07, 2026

**BSE Limited**

Corporate Relationship Department,  
1<sup>st</sup> Floor, New Trading Ring,  
Rotunda Building, P.J. Towers,  
Dalal Street, Fort, Mumbai - 400001

**BSE Scrip Code: 509874**

**ISIN: INE849C01026**

**National Stock Exchange of India Limited**

Exchange Plaza, 5<sup>th</sup> Floor,  
Plot No. C/1, G- Block  
Bandra Kurla Complex, Bandra (E),  
Mumbai – 400051

**NSE Symbol: SHALPAINTS**

Dear Sir/Madam,

**Sub: Intimation of Public Notice regarding Completion of dispatch of Postal Ballot Notice**

Pursuant to Regulation 30 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("the Listing Regulations"), please find enclosed copies of notice given to the members of the Company in accordance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013, read with the Rules issued thereunder, and the Listing Regulations, inter alia, informing them about the resolution proposed to be passed by Postal Ballot through e-voting process only and details thereof.

The notice was published in the following newspaper on Wednesday, January 07, 2026:

- Financial Express - All Editions; and
- Jansatta - Hindi Edition

Kindly acknowledge the receipt and take the same on records.

Thanking You,

Yours faithfully,

**For Shalimar Paints Limited**

**Snehal Saboo**

**Company Secretary & Compliance Officer**

**Membership No. A49811**

Encl.: As above



Continue From Previous Page...

Sr No	Category	No. Of Applications Received	% Of Total	Total No. of Equity Shares Applied	% To Total	No. Of Equity Shares Allotted Per Bidder	Ratio	Total No. Of Equity Shares Allotted
42	1,08,800	1	0.00	1,08,800	0.03	4,800	0:01	0
43	1,12,000	2	0.01	2,24,000	0.07	4,800	0:02	0
44	1,28,000	1	0.00	1,28,000	0.04	4,800	0:01	0
45	1,32,800	1	0.00	1,32,800	0.04	4,800	0:01	0
46	1,39,200	2	0.01	2,78,400	0.08	4,800	0:02	0
47	1,45,600	1	0.00	1,45,600	0.04	4,800	0:01	0
48	1,53,600	1	0.00	1,53,600	0.05	4,800	0:01	0
49	1,60,000	1	0.00	1,60,000	0.05	4,800	0:01	0
50	2,16,000	1	0.00	2,16,000	0.06	4,800	0:01	0
51	2,68,800	1	0.00	2,68,800	0.08	4,800	0:01	0
52	2,83,200	1	0.00	2,83,200	0.08	4,800	0:01	0
53	2,92,800	1	0.00	2,92,800	0.09	4,800	0:01	0
54	7,53,600	1	0.00	7,53,600	0.22	4,800	0:01	0
TOTAL		28736	100	33,69,18,400	100.00			393600

4) Allocation to QIBs excluding Anchor Investors (After Rejections): The Basis of Allotment to QIBs, who have bid at Issue Price of ₹ 90 per Equity Shares or above, was finalized in consultation with BSE. The category was subscribed by 193.29 times i.e. for 15,12,32,000 Equity shares. The total number of shares allotted in this category is 7,82,400 Equity Shares to 80 successful applicants. The category wise details of the Basis of Allotment are as under:

Category	FIS/Banks	MF'S	IC'S	NBFC'S	AIF	FPI/FI	VCs	Total
Allotment	-	-	8,000	1,39,200	4,67,200	1,61,600	6,400	7,82,400

5) Allocation to Anchor Investors (After Rejections): The Company in consultation with the BRLM has allotted 11,61,600 Equity Shares to 09 Anchor Investors at Anchor Investor Issue Price of ₹ 90 per Equity Shares in accordance with the SEBI ICDR Regulations. The category wise details of the Basis of Allotment are as under:

Category	FIS/Banks	MF'S	IC'S	NBFC'S	AIF	FPI/FI	Others	Total
Anchor	-	-	-	1,13,600	10,48,000	-	-	11,61,600

6) Allocation to Market Maker (After Rejections): The Basis of Allotment to Market Maker who have bid at Issue Price of ₹ 90 per Equity Shares or above, was finalized in consultation with BSE. The category was subscribed by 1.00 times i.e. for 2,06,400 Equity shares. The total number of shares allotted in this category is 2,06,400 Equity Shares. The category wise details of the Basis of Allotment are as under:

No. of Shares Applied for (Category wise)	No. of applications received	% of Total	Total No. of Equity Shares applied in this Category	% of Total	No. of Equity Shares allocated/ allotted per Applicant	Ratio	Total Number of shares allotted	Surplus/ Deficit
2,06,400	1	100	2,06,400	100	2,06,400	1 1	2,06,400	-
TOTAL	1	100	2,07,000	100	2,07,000		2,06,400	-

The Board of Directors of the Company on January 05, 2026, has taken on record the Basis of Allotment of Equity Shares as approved by BSE Limited and has allotted the Equity Shares to various successful bidders. The Allotment Advices-cum-Intimations and/or notices have been forwarded to the email ids and/or address of the Applicants as registered with the depositories/as filled in the application form. Further, the instructions to Self-Certified Syndicate Banks for unblocking the funds & transfer to Public Issue Account have been issued on or before January 06, 2026 and payment to non-syndicate brokers has been issued on or before January 06, 2026. In case the same is not received within two working days, investors may contact at the address given below. The equity shares allotted to the successful allottees have been uploaded on or before January 06, 2026 for credit into the respective beneficiary accounts subject to validation of the account details with the depositories concerned. The Company will file the Listing application with BSE Limited on or before January 06, 2026. The trading will commence on January 07, 2026.

INVESTORS, PLEASE NOTE

The details of the allotment made would also be hosted on the website of the Registrar to the issue, **MUFG Intime India Private Limited (Formerly Link Intime India Private Limited)** at [www.in.mpms.mufg.com](http://www.in.mpms.mufg.com). All future correspondence in this regard may kindly be addressed to the Registrar to the Issue quoting full name of the First/ Sole applicants, serial number of the Bid cum Application Form, number of shares applied for and Bank Branch where the application had been lodged and payment details at the address of the Registrar given below:

**MUFG Intime India Private Limited (Formerly Link Intime India Private Limited)**  
**SEBI Registration Number:** INR000004058  
**Address:** C 101, 247 Park, Lal Bahadur Shastri Marg, Vikhroli (West), Mumbai 400 083, India  
**Tel. No.:** +91-22-4918 6000/+91 8108114949  
**Email Id:** [moderndiagnostic.smeipo@in.mpms.mufg.com](mailto:moderndiagnostic.smeipo@in.mpms.mufg.com)  
**Investors Grievance Id:** [moderndiagnostic.smeipo@in.mpms.mufg.com](mailto:moderndiagnostic.smeipo@in.mpms.mufg.com)  
**Website:** [www.in.mpms.mufg.com](http://www.in.mpms.mufg.com)  
**Contact Person:** Shanti Gopalkrishnan  
**CIN:** U67190MH1999PTC118368

On behalf of Board of Directors  
For, Modern Diagnostic & Research Centre Limited  
Sd/-  
Mr. Devendra Singh Yadav  
Managing Director

Place: Delhi  
Date: January 06, 2026

THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARES ON LISTING OR THE BUSINESS PROSPECTS OF MODERN DIAGNOSTIC & RESEARCH CENTRE LIMITED.  
Modern Diagnostic & Research Centre Limited is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public issue of its Equity Shares and has filed the RHP with the Registrar of Companies, Delhi on December 23, 2025 and thereafter with SEBI and the Stock Exchanges. The RHP is available on the websites of SEBI at [www.sebi.gov.in](http://www.sebi.gov.in), website of the Company at [www.mdrindia.com](http://www.mdrindia.com), the website of the BRLM to the Issue at [www.beelimb.com](http://www.beelimb.com), the website of BSE SME i.e. [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com), respectively. Any potential investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to the same, please refer to the RHP including the section titled "Risk Factors" beginning on page 23 of the Prospectus.  
The Equity Shares have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act") or any state securities laws in the United States, and unless so registered, and may not be issued or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and in accordance with any applicable U.S. state securities laws. The Equity Shares are being Offered and sold outside the United States in "offshore transactions" in reliance on Regulation S under the Securities Act and the applicable laws of each jurisdiction where such Offers and sales are made. There will be no public offering in the United States.

**TVS HOLDINGS LIMITED**  
(formerly known as Sundaram-Clayton Limited)  
Registered Office : "Chaitanya", No. 12, Khader Nawaz Khan Road, Nungambakkam Chennai - 600 006  
CIN : L64200TN1962PLC004792, [www.tvsholdings.com](http://www.tvsholdings.com),  
Email : [corpsec@tvsholdings.com](mailto:corpsec@tvsholdings.com) Ph : 044-28332115

Notice of Loss of Share Certificates

NOTICE is hereby given that the following share certificate(s) issued by the company are stated to have been lost or misplaced or stolen and the registered holders / the legal heirs of the registered holders thereof have applied to the company for the issue of duplicate share certificate (s)

Folio	Share Cert. No.	No. of Shares	Distinctive nos.	Name of registered holder
P01174	2595	82	208520 to 208601	P. SATHYANARAYANA SETTY

The public are hereby warned against purchasing or dealing in any way, with the above share certificates. Any person(s) who has/have any claim(s) in respect of the said share certificates should lodge such claim(s) with the company at its registered office at the address given above within 10 days of publication of this notice, after which no claim will be entertained and the company will proceed to issue duplicate share certificates.

Place : Chennai  
Date : 05.01.2026  
For TVS Holdings Limited  
Sd/- R Raja Prakash, Company Secretary

**MPS LIMITED**  
CIN: L22122TN1970PLC005795  
Registered Office: RR Towers IV, 16/17, Super A, Thiru-vi-ka, Industrial Estate Guindy, Chennai-600 032, Tamil Nadu  
Corporate Office: A-1, 4th Floor, Tower-A, Windsor IT Park, Sector 125, Noida-201303, UP, Tel: +91-120-4599750,  
Email: [investors@mpslimited.com](mailto:investors@mpslimited.com), Website: [www.mpslimited.com](http://www.mpslimited.com)  
POSTAL BALLOT NOTICE AND REMOTE E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given pursuant to the provisions of Sections 108, 110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 ("the Act"), read with Rules 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ("Management Rules"), Secretarial Standard on General Meetings (SS-2), issued by the Institute of Company Secretaries of India on General Meeting, Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended from time to time ("SEBI Listing Regulations") and the relaxations and clarifications issued by the Ministry of Corporate Affairs vide General Circular No. 03/2025 dated 22 September 2025 and other relevant circulars/notifications, issued by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India ("MCA Circulars"), and any other applicable law, rules and regulations (including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof, for the time being in force), the approval of the shareholders of MPS Limited (the "Company") is sought for the following special resolutions by way of remote e-voting process:

S.No.	Description of Resolutions
1	To Approve the Re-Appointment of Mr. Suhas Khullar (DIN: 07593659) as an Independent Non-Executive Director of the Company – <b>Special Resolution</b>
2	To Approve the Shifting of the Registered Office of the Company- <b>Special Resolution</b>

Pursuant to MCA Circulars, the Company has sent electronic copies of the Postal Ballot Notice along with the Explanatory Statement by e-mail, on Tuesday, 06 January 2026, to those members whose e-mail addresses are registered with Cameo Corporate Services Limited ("Cameo"), the Company's Registrar and Share Transfer Agent or Depository Participants as on the cut-off date i.e. Friday, 02 January 2026. The communication of the assent or dissent of the members would only take place through remote e-voting. The notice of the Postal Ballot along with the Remote e-Voting instructions is also available on the Company's Website ([www.mpslimited.com](http://www.mpslimited.com)), CDLS's website ([www.cdslindia.com](http://www.cdslindia.com)) and also on the website of National Stock Exchange of India Limited ([www.nseindia.com](http://www.nseindia.com)) and BSE Limited ([www.bseindia.com](http://www.bseindia.com)).

The voting rights of the shareholders shall be reckoned on the basis of the equity shares of the Company held by them as on the cut-off date. Any person who is not a Member as on the cut-off date should treat the Postal Ballot Notice for information purpose only.

The company has engaged the services of Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") to provide remote e-voting facility. The date and time of commencement of remote e-voting is w.e.f. Thursday, 08 January 2026, 09:00 AM (IST) and shareholders are requested to record their assent or dissent on or before Friday, 06 February 2026, 05:00 PM (IST). The remote e-voting module will be disabled by CDLS immediately thereafter and members will not be allowed to cast their votes beyond the said date and time.

For shareholders holding shares in physical form, whose email ID/Mobile No. is not registered/updated with the Company, are requested to register/update their email ID with Cameo. The Requests can be sent via email to ([nagaraj@cameoindia.com](mailto:nagaraj@cameoindia.com)) by sending Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) and for Shareholders holding shares in electronic mode can get their email ID registered/updated by contacting their respective Depository Participants where they maintain their Demat Accounts.

The Board of Directors of the Company has appointed Mr. R Sridharan of M/s R. Sridharan & Associates, Company Secretaries (CP.No.3239), as the scrutinizer for conducting the Postal Ballot process through remote e-voting in a fair and transparent manner.

The results of the remote e-voting conducted by Postal Ballot along with the Scrutinizer's Report will be made available on the website of the Company at [www.mpslimited.com](http://www.mpslimited.com) and on the website of CDLS at [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) and intimated to BSE Limited ("BSE") and the National Stock Exchange of India Limited ("NSE"), where the equity shares of the Company are listed, on or before Tuesday, 10 February 2026.

For any queries or grievances on Postal Ballot, members may please contact Mr. Nagaraj, Manager, Cameo Corporate Services Limited or send an email to [nagaraj@cameoindia.com](mailto:nagaraj@cameoindia.com) or call at 044-28460390. All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, Central Depository Services (India) Limited (CDSL), A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Pareil (East), Mumbai-400013 or send an email to [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) or call at Toll-Free No. 1800 21 09911.

For MPS Limited  
Sd/-  
Raman Sapra  
Company Secretary  
M.No. : F9233  
Place: Noida, Uttar Pradesh  
Date: 06 January, 2026

**VEDANTA LIMITED**  
CIN: L13209MH1965PLC291394  
Regd. Office: 1<sup>st</sup> Floor, 'C' Wing, Unit 103, Corporate Avenue, Atul Projects, Chakala, Andheri (East), Mumbai – 400 093  
Phone No.: +91-22-66434500, Fax: +91-22-66434530  
Website: [www.vedantalimited.com](http://www.vedantalimited.com), Email ID: [comp.sect@vedanta.co.in](mailto:comp.sect@vedanta.co.in)

NOTICE TO EQUITY SHAREHOLDERS OF THE COMPANY

Sub.: Transfer of Equity Shares of the Company to Investor Education & Protection Fund (IEPF)

Notice is hereby given pursuant to the provisions of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 and subsequent amendment thereto notified by the Ministry of Corporate Affairs ("Rules"), the Company is required to transfer all shares wherein dividend is unclaimed for a period of seven consecutive years by the shareholders of the Company to Investor Education and Protection Fund ("IEPF").

As per the Rules, the individual notices are required to be sent to the respective shareholders at their registered addresses with the Company, informing them regarding transfer of shares. Full details of such shareholders and their shares including the unclaimed dividend which are due for transfer to IEPF are made available on the website of the Company - [www.vedantalimited.com](http://www.vedantalimited.com).

As per the records of the Company, unclaimed dividend for the financial year will be transferred to IEPF on or March 15, 2026. In case the Company does not receive any claim from the concerned shareholders by March 15, 2026, or such other date as may be extended, the Company, with a view to comply with the requirements as set out in the Rules, shall transfer the shares and unclaimed dividend amount to the IEPF without any further notice as per the below procedure laid by IEPF Authority:

- Shares held in Physical form - The Company shall issue new share certificate(s) in lieu of the original held by you for the purpose of transfer to IEPF as per the Rules. Subsequently, the original share certificate(s) in name of the respective shareholder(s) shall stand cancelled and shall be deemed non-negotiable.
- Shares held in Demat form - The Company shall directly transfer the shares to the Demat account of IEPF Authority by way of corporate action executed with the help of the Depositories.

Accordingly, it is requested to the shareholders of the Company to claim the unclaimed dividend from the Financial Year 2018-19 onwards, through the Company's Registrar & Transfer Agent, M/s KFin Technologies Limited ("KFin"). The concerned shareholders may note that they can claim such transferred shares along with the dividend(s) from the IEPF Authority by submitting an online application in IEPF-5 Form and complying with the necessary procedures as prescribed by the Rules on the website of IEPF Authority - [www.iepf.gov.in](http://www.iepf.gov.in).

Please note that no claim shall lie against the Company in respect of unclaimed dividend amount/shares transferred to IEPF pursuant to the Rules.

For any queries on the subject matter,

- You may contact the Registrar & Transfer Agent(s): M/s KFin Technologies Limited, Unit: Vedanta Limited, Selenium Building, Tower-B, Plot 31-32, Financial District, Gachibowli, Nanakramguda, Hyderabad – 500 032. Tel.: +91-40-67162222, Email ID: [elward.ris@kfinetech.com](mailto:elward.ris@kfinetech.com).
- Members may also write to the Company at the registered office or send an email to [comp.sect@vedanta.co.in](mailto:comp.sect@vedanta.co.in).

For Vedanta Limited  
Sd/-  
Prerna Halwasiya  
Company Secretary & Compliance Officer  
ACS 20856

Place: New Delhi  
Date: January 7, 2026

**SHALIMAR PAINTS LIMITED**  
CIN: L24222HR1902PLC065611  
Registered Office: Stainless Centre, 4th Floor, Plot No. 50, Sector 32, Gurugram, Haryana 122001  
Corporate Office: Olethia Business Spaces, Plot No. A184 and A185, Road No. 16Z, Opposite Ashar IT Park, Wagle Industrial Estate, Thane, Maharashtra 400604  
Email: [askus@shalimarpaints.com](mailto:askus@shalimarpaints.com); Website: [www.shalimarpaints.com](http://www.shalimarpaints.com); Toll Free: 1800 103 6509

POSTAL BALLOT NOTICE AND REMOTE E-VOTING INFORMATION

Members are hereby informed that pursuant to the provisions of Section 108, 110 and all other applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act"), read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ("Rules"), General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 and other relevant circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") from time to time ("MCA Circulars"), the Secretarial Standard - 2 on General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India ("SS-2"), SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations") and other applicable laws and regulations (including any statutory modification(s) and/or re-enactment(s) thereof for the time being in force), the Company has completed the dispatch of the Postal Ballot Notice on Tuesday, January 06, 2026 through electronic mode only, to those members whose e-mail addresses are registered with the Company/Depositories and whose names are recorded in the Register of Members of the Company or Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on Friday, January 02, 2026, seeking approval of the Shareholders of the Company by Postal Ballot through electronic means for the following matter:

Type of Resolution	Resolution
SPECIAL	TO CONSIDER AND APPROVE THE REAPPOINTMENT OF MS. SHAN JAIN (DIN: 09661574) AS AN INDEPENDENT DIRECTOR OF THE COMPANY

The Company has engaged the services of Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") for providing remote e-voting facility to its members. The detailed procedure for remote e-voting is listed as a part of the Postal Ballot Notice.

Remote e-voting schedule:

Cut-off date for eligibility of remote e-voting	Friday, January 02, 2026
Commencement of remote e-voting period	09:00 a.m. IST Thursday, January 08, 2026
Conclusion of remote e-voting period	05:00 p.m. IST Friday, February 06, 2026

Please note that communication of assent or dissent of the members would only take place through the remote e-voting system. The voting rights of the members shall be in proportion to the shares held by them in paid-up equity share capital of the Company as on cut-off date.

A person who is not a member as on the cut-off date should treat this notice for information purpose only. Once the vote on a resolution is cast, members shall not be allowed to change it subsequently.

The remote e-voting shall not be allowed beyond 05:00 p.m. (IST) on Friday, February 06, 2026 and the remote e-voting module shall be disabled by the CDLS thereafter.

The Board of Directors of the Company have appointed Mr. Ankush Agarwal (COP No 14486), Partner of M/s. MAK & CO., Company Secretaries (FRN P2018UP067700), as the Scrutinizer for conducting e-voting process for Postal Ballot in a fair and transparent manner.

The Postal Ballot Notice is also available on the website of the Company i.e. [www.shalimarpaints.com](http://www.shalimarpaints.com), on the website of CDLS i.e. [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) and website of the Stock Exchanges where the equity shares of the Company are listed, BSE Limited ("BSE") i.e. [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Limited ("NSE") [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com).

Shareholders holding shares held in electronic form and who have not updated their email or KYC details are requested to register/update the details in their demat account, as per the process advised by their respective Depository Participant. Shareholders holding shares held in physical form who have not updated their email or KYC details are requested to register/update the said details in the prescribed Form ISR-1 with Registrar and Share Transfer Agent of the Company, Beetal Financial & Computer Services Private Limited.

For details relating to remote e-voting, please refer to the Postal Ballot Notice. In case of any queries relating to voting by electronic means, shareholders may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting manual available at [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) under help section or write an e-mail to [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com).

The Scrutinizer will submit his report to the MD & CEO or any person authorised by him in writing, after the completion of the scrutiny of the e-voting, and the results will be announced within 2 (two) working days from the conclusion of e-voting. The results so declared along with the Scrutinizer's Report shall be placed on the website of the Company i.e. [www.shalimarpaints.com](http://www.shalimarpaints.com) and CDLS i.e. [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) and shall also be forwarded to the Stock Exchanges on which shares of the Company are listed i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited.

By order of the Board  
For Shalimar Paints Limited

Place: Mumbai  
Date: January 06, 2026

Sd/-  
Snehal Saboo  
Company Secretary & Compliance Officer  
Membership No. A49811

**MIRAE ASSET**  
Mutual Fund

NOTICE NO. AD/01/2026

Declaration of Income Distribution cum Capital Withdrawal in Mirae Asset Midcap Fund & Mirae Asset Large & Midcap Fund

NOTICE is hereby given that Mirae Asset Trustee Company Pvt. Ltd., Trustees to Mirae Asset Mutual Fund ("MAMF") have approved declaration of Income Distribution cum Capital Withdrawal (IDCW) in Mirae Asset Midcap Fund & Mirae Asset Large & Midcap Fund:

Scheme / Plan / Option	Quantum** (₹ per unit)	NAV as on January 05, 2026 (₹ per unit)	Record Date*	Face Value (₹ per unit)
Mirae Asset Midcap Fund - Regular Plan - Income Distribution cum Capital Withdrawal option	2.15	27.350	Friday, January 09, 2026	10.00
Mirae Asset Midcap Fund - Direct Plan - Income Distribution cum Capital Withdrawal option	2.35	29.918		
Mirae Asset Large & Midcap Fund - Regular Plan - Income Distribution cum Capital Withdrawal option	3.70	52.589		
Mirae Asset Large & Midcap Fund - Direct Plan - Income Distribution cum Capital Withdrawal option	6.35	90.591		

\* or the immediately following Business Day, if that day is not a Business day.  
\*\* subject to availability of distributable surplus as on the record date and as reduced by applicable statutory levy, if any.

Pursuant to the payment of IDCW, the NAV of the IDCW option of the above-mentioned Plans of the Schemes will fall to the extent of pay-out and statutory levy (if applicable).

Income distribution will be paid to those unitholders / beneficial owners whose names appear in the register of unit holders maintained by the Mutual Fund / statement of beneficial ownership maintained by the depositories, as applicable, under the IDCW option of the aforesaid plans as on the record date.

For and on behalf of the Board of Directors of  
**MIRAE ASSET INVESTMENT MANAGERS (INDIA) PVT. LTD.**  
(Asset Management Company for Mirae Asset Mutual Fund)

Place : Mumbai  
Date : January 06, 2026  
Sd/-  
AUTHORISED SIGNATORY

**MIRAE ASSET MUTUAL FUND (Investment Manager: Mirae Asset Investment Managers (India) Private Limited)** (CIN: U65990MH2019PTC324625), Statutory Details: Sponsor: Mirae Asset Global Investments Company Limited. Trustee: Mirae Asset Trustee Company Private Limited.  
**Registered & Corporate Office:** 606, 6th Floor, Windsor Building, Off CST Road, Kalina, Santacruz (E), Mumbai - 400098. ☎ 1800 2090 777 (Toll free), ✉ [customer@miraeasset.com](mailto:customer@miraeasset.com) 🌐 [www.miraeassetmf.co.in](http://www.miraeassetmf.co.in)

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

**SAT KARTAR SHOPPING LIMITED**  
CIN: L2590DL2012PLC238241  
Regd Office : 603, 6<sup>th</sup> Floor, Mercantile House, KG Marg, New Delhi -110001  
Website : [www.satkartar.in](http://www.satkartar.in) | Email: [info@satkartar.in](mailto:info@satkartar.in) | Phone No: +9111-40550741

POSTAL BALLOT NOTICE ("Notice")

Members are hereby informed that pursuant to Section 108 and Section 110 of the Companies Act, 2013 ("Act"), read together with Rule 20 and Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Secretarial Standards-2 issued by the Institute of Company Secretaries of India on general meetings, the relaxations and clarifications issued by the Ministry of Corporate Affairs vide General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020 read with General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, General Circular No. 22/2020 dated June 15, 2020, General Circular No. 33/2020 dated September 28, 2020, General Circular No. 39/2020 dated December 31, 2020, General Circular No. 10/2021 dated June 23, 2021, General Circular No. 20/2021 dated December 8, 2021, General Circular No. 3/2022 dated May 5, 2022, General Circular No. 11/2022 dated December 28, 2022, General Circular No. 09/2023 dated September 25, 2023 and General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 ("MCA Circulars"), any circular issued by the Securities and Exchange Board of India and other applicable laws and regulations, if any, Sat Kartar Shopping Limited ("Company") has completed dispatch of Notice along with explanatory statement on January 06, 2026 only through electronic mode to all those members of the Company, whose email addresses are registered with the Company/Depositories and Depository Participant(s) Registrar and Share Transfer Agent ("RTA"), Skyline Financial Services Private Ltd and whose names appear in the Register of Members/List of Beneficial Owners as on Friday, January 02, 2026 ("Cut-Off Date"). The requirement for sending physical copy of the Notice and postal ballot form along with pre-paid business envelope, has been deferred with vide relevant MCA Circulars. The members are required to communicate their assent or dissent through the remote e-voting system only.

Members are hereby further informed that:

- Following special business is to be transacted by way of passing special resolution through postal ballot by voting through electronic means only ("remote e-voting"):  
To approve change of name of the Company and





नेटवर्क टेक्नोलॉजी विभाग, भारतीय स्टेट बैंक, खोबल आईटी-सेन्टर  
सेक्टर-11, सीबीडी बेंगलूर, नवी मुंबई - 400614

**प्री-बिड प्रश्नों पर बैंक की प्रतिक्रिया और शुद्धिपत्र - 4**

नेटवर्क परफॉर्मन्स मॉनिटरिंग आण्ड डायग्नोस्टिक (एनपीएमडी) समाधान की खरीद के लिए कृपया आरएफपी क्र. SBI/GITC/NWTEch/2025-26/1411 दिनांकित 20.11.2025 को देखें. प्री-बिड प्रश्नों पर बैंक की प्रतिक्रिया और शुद्धिपत्र-4 दिनांकित 06.01.2026 को बैंक की वेबसाइट <https://sbi.bank.in> पर प्रकाशित/नेटवर्क के अंतर्गत या ई-प्रोक्योरमेंट एजेंसी पोर्टल <https://etender.sbi/SBI/> पर देखा जा सकता है.

स्थान: नवी मुंबई

दिनांक: 07.01.2026

हस्ताक्षर / - उप महाप्रबंधक  
(नेटवर्क टेक्नोलॉजी विभाग)



**हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड**

पंजीकृत कार्यालय: 09, कथुनगिरी सेंटर, सप्तम लोक, दादर विहार, नई दिल्ली - 110057  
फोन: 011 49267000, टोल फ्री नंबर: 1800 212 8800, ईमेल: customer.care@hero Hoffman  
वेबसाइट: www.herohousingfinance.com | CIN: U65192DL2016PLC30148  
संपर्क पता: इंदिरा तल, ए-6, सेक्टर-4, नेहरू, गैलम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश-201301

**शुद्धिपत्र**

यह इस समाचार पत्र में दिनांक 01.01.2026 को कृष्णी सुनील, पुत्र गणपत, रंजिता पत्नी सुनील ( कृष्ण खाता सं. HHFNPSPHOU22000020772) के सदस्य में प्रकाशित कच्चा सूचना विज्ञापन के सदस्य में है, जिसमें आवेदक/यह-आवेक का नाम गलती से "Sumi, S/son of Ganpat, Ritika, wife of Sundi" टाइप हो गया था जबकि सही नाम "सुनील, पुत्र गणपत, रंजिता, पत्नी सुनील" है। अन्ना सती विवरण यथावत रहेंगे।

दिनांक: 07.01.2026, स्थान: पंजीकृत कार्यालय      हस्ता: - प्रमाणित अधिकारी, कृष्णी हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

## 17.12.2025 को प्रकाशित प्रपत्र ए पर अपडेट

यह 'फाइनेंशियल एक्सप्रेस' और 'जनसत्ता', लखनऊ संस्करण में दिनांक 17.12.2025 को प्रकाशित सार्वजनिक घोषणा का एक अपडेट है।  
{भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कॉर्पोरेट व्यक्तियों की दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 6 के तहत}, मेसर्स लक्ष्मी ऑयल एंड वनस्पति प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानार्थ

माननीय एनसीएलएटी द्वारा दिनांक 05.01.2026 को सीआईआरपी पर लगी स्थान हटा दिए जाने के आलोक में, उक्त सार्वजनिक घोषणा के क्रम सं. 11 में, दावे प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि को 30.12.2025 के बजाय 18.01.2026 पड़ा जाए।

**हस्ता/-**

**रोहित सहगल**

दिनांक: 07.01.2026

स्थान: गुरुग्राम


**अंतरिम समाधान पेशेवर,**

**लक्ष्मी ऑयल एंड वनस्पति प्राइवेट लिमिटेड**

**पंजी. सं.: IBBI/PA-001/IP-P00528/2017-18/10953**

**पत्राचार हेतु ईमेल**

**आईडी: laxmi.oil@truproinsolvency.com**



**जम्मू और कश्मीर बैंक लिमिटेड**

बलरस्तार ऑफिस, अलीम कॉम्प्लेक्स,  
अकबरी गेट, लखनऊ-03

ईमेल-कू-बसन्तनगर/राइटउसस.बवउ

**कच्चा सूचना**

सरफेसी एक्ट, 2002 की धारा 13 (4) के तहत सूचना,  
जिससे सुरक्षा (प्रवर्तन) हित नियम, 2002 के नियम 8 (1) के साथ पठित

- जबकि जम्मू और कश्मीर बैंक लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रोत्तिभूति प्रवर्तन (सरफेसी) अधिनियम, 2002 के तहत और एक अधिनियम की धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिभूति व्याज (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पढा और दिनांक 07-07-2026 को मांग नोटिस जारी किया, जिससे उपचारकर्ता अर्थात् मेसर्स सत्तार चिकन को बुलाया गया। कला प्रस्तावनी लखनऊ सत्तार खान इकाई का (पता रास दुकान नं. 302 / 17 कटरा हेक्टर इंदर हुसैन ग्राउंड फ्लोर, चौक लखनऊ, 226003 उ.प्र. (उत्तरांचल))
- यूनिट पता 2: दुकान नंबर 302 / 31, फाटक हेक्टर इंदर हुसैन, फरकानिया मंदरना चौक के पास, लखनऊ –226003
- मोहम्मद सत्तार खान पुत्र नबी आलम खान निवासी 429 /29 / 1, मोजज्जम नगर चौक, लखनऊ –226003 उ.प्र. (कन्याएं)
- श्रीमती तबसुम खान पत्नी मोहम्मद सत्तार खान निवासी मकान नंबर 429 /72 / 1 मोजज्जम नगर वाई गडोधी गिरा खान चौक लखनऊ 226003 उ.प्र. (गिरवी रखने वाला-सह-गारंटर) को रु. **70,44,354.15 रुपये** (रुपये सत्तर लाख चौबीसवां हजार तीन सौ चौरान और पंद्रह पैसे मात्र) की राशि, जो 04-07-2025 तक कर्जादार के खाते में बकाया है, उक्त नोटिस की तारीख से 60 दिनों के भीतर मरिथ्य के ब्याज और अन्य शुल्कों के साथ चुकाने के लिए कहा गया है। चूंकि उक्त उपचारकर्ता उक्त राशि चुकाने में विफल रहा है, इसलिए इसके द्वारा विशेष रूप से उक्त उपचारकर्ता को और आम जनता को सूचित किया जाता है कि मैं, जो जम्मू और कश्मीर बैंक लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी, ने उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के तहत दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित, 5 जनवरी, 2026 को नीचे वर्णित गिरवी रखी गई संपत्ति पर कब्जा कर लिया है।
- उक्त उपचारकर्ता और आम जनता को इसके द्वारा चेतावनी दी जाती है कि वे उक्त संपत्ति के साथ किसी भी तरह का लेन-देन न करें और उक्त संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन जम्मू और कश्मीर बैंक लिमिटेड के अधीन होगा, जो कुल मिलाकर रु. **72,04,295.15 (रुपये बहत्तर लाख चार हजार दो सौ पचावन रुपये और पंद्रह पैसे मात्र)** है, साथ ही 01.10.2025 से उस पर मरिथ्य का ब्याज और अन्य शुल्क जो लगे हैं या लगेगें। अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (6) के प्राधान्य के तहत, सुरक्षित संपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समक के संबंध में त्रुटि का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

**अचल संपत्ति का विवरण**

प्लेटेंड का सामान बंधक। नगर निगम हाउस नं. 302 / 14 माग 700 वर्गफुट मुहल्ला कटला हेक्टर हुसैन वाई अशरफाबाद लखनऊ उ.प्र. 226003, माप 115.79वर्ग मीटर, श्री मोहम्मद सत्तार खान के नाम पर पंजीकृत।

शुल्क का विस्तार मकान सं. का सामान बंधक 429 /72 / 1 और खसरा नं. 162 मोजम नगर वाई गडोधी गिरा खान, लखनऊ 226003 उ.प्र., 115.79वर्ग मीटर में स्थित है। श्रीमती तबसुम खान पत्नी मोहम्मद सत्तार खान के नाम पर पंजीकृत

स्थान: लखनऊ  
तारीख: 05.01.2026

फोन: +91 (0) 194 2481 930-35  
फाक: +91 (0) 194 248 1928  
सीआईएन: L65101KH1935SGC000048  
ईमेल: info@jkbank.com; वेबसाइट: www.jkbank.net

**EXIT OFFER FOR THE ATTENTION OF RESIDUAL SHAREHOLDERS OF JAIN TUBE COMPANY LIMITED**

Corporate Identity Number: U25111DL1984PLC004235

Registered Office: B-292, Office No. 202, Second Floor, Chandra Kantia Complex, New Ashok Nagar, Delhi-110096, India

Telephone No.: +91 7428860315; Website: www.jaintubes.in; E-mail ID: jaintubesindia@gmail.com

This Exit Offer Public Announcement ("Exit Offer IDA") is being issued in continuation to the earlier announcement made on April 04, 2025, July 01, 2025 and October 05, 2025 with regard to the Voluntary Delisting of Jain Tube Company Limited ("Company") from The Calcutta Stock Exchange of India Limited ("CSE"), intimating about the Exit Offer being given to the remaining Public Shareholders ("Residual Shareholders") who continue to hold Equity Shares after the Delisting offer and wish to tender their equity shares to the Acquirers at an exit price of Rs 54/- per Equity Share ("Exit price") from Thursday, January 16, 2025 to Friday, January 15, 2027 ("Exit Window"). The Exit Letter of Offer along with the exit application form ("Exit Letter of Offer") is being sent to the Residual Shareholders on 06.01.2026. The payment shall be made on a monthly basis, within 10 working days from the end of the relevant calendar month in which the Exit Offer Form has been received from the Acquirer ("Monthly Payment Cycle").

Kindly access the Exit Letter of Offer along with the exit application form ("Exit Letter of Offer") from the website of the Company at [www.jaintubes.in](http://www.jaintubes.in), website of the Registrar at [www.alankit.com](http://www.alankit.com) and website of the Manager to the Offer at [www.corporateprofessionals.com](http://www.corporateprofessionals.com) or scan the below link:



**CORPORATE PROFESSIONALS**

CAPITAL PRIVATE LIMITED

D-28, South Extension Part-1,  
New Delhi – 110049, India

Contact Person: Ms. Anjali Aggarwal  
Telephone: 011-40622230/40622209;  
Email: nb@indiacp.com

Website: www.corporateprofessionals.com

SEBI Registration No.: INM000011435  
Validity Period: Permanent  
CIN: U74899DL2000PTC104508

For Acquirers  
Sd/-  
Sushil Jain  
Acquirer 1

Place: New Delhi  
Date: January 06, 2026



**ALANKIT ASSIGNMENTS LIMITED**

205-208, Anarak Complex, Jhandewalan Extension, New Delhi-110055, India

Contact Person: Mr. Virender Sharma  
Telephone: +91 9829955302  
Email: virenders@alankit.com  
Website: www.alankit.com

SEBI Registration No.: INR00002532  
Validity Period: Permanent  
Corporate Identity Number: U74210DL1991PLC042569

Sd/-  
Ishaan Jain  
Acquirer 2



**SHALIMAR PAINTS**  
SINCE 1902

**शालीमार पेंट्स लिमिटेड,**  
सीआईएन: L24222HR1902PLC065611

**पंजीकृत कार्यालय:** स्टैनलेस सेंटर, चौथी मंजिल, प्लॉट नंबर 50, सेक्टर 32, गुरुग्राम, हरियाणा 122001.

**कॉर्पोरेट कार्यालय:** ओलेथिया बिजनेस स्पेस, प्लॉट नंबर 1184 और 1185, रोड नंबर 16, आशर आईटी पार्क के सामने, गगल ओडीओनिक एस्टेट, ठाणे, महाराष्ट्र 400604.

**ईमेल:** askus@shalimarpaints.com, वेबसाइट: www.shalimarpaints.com.

**टोल फ्री:** 1800 103 6509

**डाक मतपत्र सूचना और दूरस्थ ई-मतदान संबंधी जानकारी**

सदस्यों को सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 108, 110 और अन्य सभी लागू प्राधान्यों के अनुसार, कंपनी (प्रवर्तन और प्रशासन) नियम, 2014 ("नियम"), दिनांक 19 सितंबर, 2024 के सामान्य परिपत्र संख्या 09/2024 और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ("एमसीए") द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अन्य प्रासंगिक परिपत्रों ("एमसीए परिपत्र"), भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी आम बैठकों पर सचिवीय मानक - 2 ("एसएस-2"), एसईबीआई (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ("एसईबीआई सूचीकरण विनियम") और अन्य लागू कानूनों और विनियमों (जिसमें समय-समय पर लागू कोई भी वैधानिक संशोधन और/या पुनर्अधिनियमन शामिल है) के अनुसार, कंपनी ने मंगलवार, 6 जनवरी, 2026 को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से डाक मतपत्र सूचना का प्रेषण पूरा कर लिया है। केवल उन सदस्यों से, जिसके ईमेल पते कंपनी/डिजिटलरी के साथ पंजीकृत हैं और जिसके को सदस्यों के रजिस्ट्रार या डिजिटलरी द्वारा बनाए गए लामकारी मालिकों के रजिस्ट्रार में शुक्रवार, 2 जनवरी, 2026 तक दर्ज हैं, निम्नलिखित मामले के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से डाक मतपत्र द्वारा कंपनी के शेयरधारकों की स्वीकृति प्राप्त करने का अनुरोध किया जाता है:

**प्रस्ताव का प्रकार**

**प्रस्ताव**

**विशेष प्रस्ताव**

सुश्री शान जैन (सीआईएन: 09661574) को कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त करने पर विचार एवं अनुमोदन के लिए

अधुनी ने अपने सदस्यों को दूरस्थ ई-मतदान सुविधा प्रदान करने के लिए सेंट्रल डिजिटलरी सॉल्यूशंस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) की सेवाएँ ली हैं। दूरस्थ ई-मतदान की विस्तृत प्रक्रिया डाक मतपत्र सूचना के मांग के रूप में सूचीबद्ध है।

दूरस्थ ई-मतदान का कार्यक्रम:	
दूरस्थ ई-मतदान के लिए पात्रता की अंतिम तिथि:	शुक्रवार, 2 जनवरी, 2026
दूरस्थ ई-मतदान अवधि का प्रारंभ:	सुबह 9:00 बजे (भारतीय समानुसार): गुरुवार, 8 जनवरी, 2026
दूरस्थ ई-मतदान अवधि का समापन:	शाम 5:00 बजे (भारतीय समानुसार): शुक्रवार, 6 फरवरी, 2026

कृपया ध्यान दें कि सरफेसी की सहमति या असहमति का संचार केवल रिपोर्ट ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से ही होगा। सदस्यों के मतदान अधिकार कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनके द्वारा धारित शेयरों के अनुपात में होंगे, जो कट-ऑफ तिथि तक मान्य होंगे। जो व्यक्ति कट-ऑफ तिथि तक सदस्य नहीं है, उसे यह सूचना केवल सूचना के उद्देश्य से ही सम्मानी चाहिए। एक बार किसी प्रस्ताव पर मतदान हो जाने के बाद, सदस्यों को बाद में उसमें परिवर्तन करने की अनुमति नहीं होगी। रिपोर्ट ई-वोटिंग शुक्रवार, 6 फरवरी, 2026 को शाम 5:00 बजे (आईएसटी) के बाद मान्य नहीं होगी और इसके बाद सीडीएसएल द्वारा रिपोर्ट ई-वोटिंग मॉड्यूल निष्क्रिय कर दिया जाएगा। कंपनी के निदेशक मंडल ने मेसर्स के पार्टनर श्री अंकुश अग्रवाल (सीओपी संख्या 14486) को नियुक्त किया है। मेसर्स एनएकेएस एंड कंपनी, सेक्टरटी (ERN 2018UP67700), जो डाक मतपत्र द्वारा ई-मतदान प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संचालित करने के लिए निरीक्षक नियुक्त किया गया है।

डाक मतपत्र की सूचना कंपनी की वेबसाइट [www.shalimarpaints.com](http://www.shalimarpaints.com), CDLS की वेबसाइट [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) और उन स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों पर भी उपलब्ध हैं जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं, जैसे कि बैं लिमिटेड ("BSE") [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (NSE) [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com), जिन शेयरहोल्डर्स के शेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप में हैं और जिन्होंने अपनी ईमेल या कंपनी के अनुसार अपने डीनट अकाउंट में डिजिटल रजिस्ट्रार/अपडेट कर दिए। जिन शेयरहोल्डर्स के शेयर फिजिकल रूप में हैं और जिन्होंने अपनी ईमेल या केआईडी डिजिटल अपडेट नहीं की है, उनसे अनुरोध है कि वे बाकी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट, बीटल फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के पास निवर्तित फॉर्म आईएसआर –1 में वे डिजिटल रजिस्ट्रार/अपडेट करें।

दूरस्थ ई-मतदान से संबंधित विवरण के लिए, कृपया डाक मतपत्र सूचना देखें। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए, शेयरधारक [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) पर सहायता अनुभाग में उपलब्ध अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ) और ई-मतदान मैनुअल देख सकते हैं या [helpdesk.evoting@cdsindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdsindia.com) पर ईमेल लिख सकते हैं। ई-मतदान की जांच पूरी होने के बाद, जांचकर्ता अपनी रिपोर्ट एमडी एवं सीओडी या उनके द्वारा लिखित रूप में अधिकृत किसी व्यक्ति को प्रस्तुत करेगा, और परिणाम ई-मतदान की समाप्ति के 2 (दो) कार्य दिवसों के भीतर घोषित किए जाएंगे। इस प्रकार घोषित परिणाम, जांचकर्ता की रिपोर्ट के साथ, कंपनी की वेबसाइट [www.shalimarpaints.com](http://www.shalimarpaints.com) और CDLS की वेबसाइट [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) पर उपलब्ध कराया जाएगा और कंपनी के शेयरों को सूचीबद्ध करने वाले स्टॉक एक्सचेंजों, अर्थात् बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड को भी भेजे जाएंगे।

के ओ आदेशानुसार,  
**शालीमार पेंट्स लिमिटेड के लिए,**  
हस्ताक्षरित /-  
रंजेल रावू, कंपनी सचिव एवं अंगुलतन अधिकारी,  
सदस्यता संख्या: E49811



**जेएम फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड**

**कॉर्पोरेट पहचान सं.:** U67190MH2007PLC74287

**पंजीकृत कार्यालय:** 7वीं मंजिल, सेनग्री, अप्पलसाहेब मर्रादा मार्ग, प्रभादेवी, मुंबई 400025

संपर्क व्यक्ति: 1. प्रभात पंडित - 7054013999, 2. वरुणा कुमार - 8445422518, 3. प्रभात मोदी - 022-6224 1676 वेबसाइट:- [www.jmfinancialarc.com](http://www.jmfinancialarc.com)

**ई-नीलामी विक्री सूचना-अनुवर्ती विक्री**

बीएमएल कैपिटल एंड ब्राउंसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने एक एक्साइटेड अनुबंध दिनांकित 29 मार्च 2023 ("एक्साइटेड अनुबंध") के द्वारा वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रोत्तिभूति प्रवर्तन (सरफेसी) अधिनियम, 2002 ("सरफेसी अधिनियम") की धारा 5(1) की (क) के अंतर्गत समस्त अधिकारों, सामान्य एवं हित के साथ रेवॉल्विक्लरशि की प्रोत्तिभूति हित के साथ आम (निम्न वर्णित कर्ता सहित) को (जोएम) (यहां इतरेमें एक्साइटेड) के रूप में सार्वजनिक (जेएमएफएफआरसी-आरएम-ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता के अंतर्गत कार्यरत, के पक्ष में सौंप दिया है। यह अधिसूचित किया जाता है कि पीसीएसएल को एक्साइटेड/सर्विस अनुबंध के द्वारा समस्त परिसंपत्तियां एवं कार्यवाहकताएं वाली प्रक्रियाओं का सार्वजनिक करने हेतु सेवा प्रदाता/संसाधन आकर्षकों के रूप में कार्य करने के लिये प्रोत्तिभूत एवं नियुक्त किया गया है। एक्साइटेड/ऑ से बचका राशि को वापस करने हेतु सरफेसी अधिनियम 2002 के अंतर्गत प्रोत्तिभूत रूपान्तरण के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राप्त योगे वर्णित प्रोत्तिभूत परिसंपत्ति का अधिग्रहण किये जाने के अनुरूप में, अयोग्यतासम्बन्धी द्वारा प्राप्त निम्न उल्लिखितानुसार, अल्प संख्या अतिथिगत के अंतर्गत है, जिसके विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत है, के क्रमार्थ "जैसी है जहां है आधार", "जैसी है जो है आधार" तथा "यहां जो कुछ भी है के आधार" पर प्रस्ताव अंतिम किया जाते हैं:

क्रम क्रोड/शाखा/उपचारकर्ता/सह-उपचारकर्ता/गारंटर	मांग सूचना की तिथि एवं राशि	सम्पत्ति का पता - अंतिम	आंशिक मूल्य	नया बरीकर राशि (रुपयों) (आरपी का 10%)	बकाया राशि (29.12.2025)
क्रम क्रोड नं.: 24000002674, कानपुर (शाखा), चौदह सिंह बसोना (उपचारकर्ता), सनम सिंह (सह उपचारकर्ता 1)	दिनांक 17-05-2021 रु. 11,69,117/- (रु. ग्यारह लाख उनसतर हजार और बी सत्तह मांज)	सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश निम्नका विस्तारित: मानन नं. 38-ए1, चौबी पुराना, गांव नौसला, कानपुर ग्रामीण, उत्तर प्रदेश-208021	रु. 17,40,000/- (रु. सत्तह लाख चौबीस हजार मात्र)	रु. 1,74,000/- (रु. एक लाख चौबीस हजार मात्र)	रु. 22,55,266.79/- (रु. 22,55,266.79 लाख पचास हजार और पैसे उनसती मांज)
क्रम क्रोड नं.: 12000004956, बारासती (शाखा), सत्य कुमार (उपचारकर्ता), यशोदा सिंह (सह उपचारकर्ता 1)	दिनांक 29-10-2019 रु. 17,96,488/- (रु. सत्तह लाख छियात्ते हजार चार सौ अठ्ठासी मांज)	सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश निम्नका विस्तारित: अरुजी नं. 1002अर्थ बीजा घरना परमना भाई बंदीली बंदीली उत्तर प्रदेश 232101	रु. 10,60,000/- (रु. दस लाख सत्तह हजार मात्र)	रु. 1,06,000/- (रु. एक लाख छठ हजार मात्र)	रु. 44,57,213/- (रु. बीसती लाख सत्तर हजार दो सौ तेरह मांज)
क्रम क्रोड नं.: 06000007211, लखनऊ (एमएमएस मांग (शाखा), शोभा चंद्रसेन (उपचारकर्ता), शोभा मनीष (सह उपचारकर्ता 1), राज बालन (सह उपचारकर्ता 2), हार्थिनी भसीन (गारंटर 1)	दिनांक 27-12-2022 रु. 96,92,127/- (रु. छियात्ते लाख छियात्ते हजार और बी सत्तहस्र मांज)	सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश निम्नका विस्तारित: धरारा नं. 137 निम्न निम्नतः लखनऊ, लखनऊ उत्तर प्रदेश-226001	रु. 145,60,000/- (रु. एक करोड़ पचासती लाख सत्तह हजार मात्र)	रु. 14,56,000/- (रु. बीस लाख सत्तर हजार मात्र)	रु. 157,93,858.84/- (रु. एक करोड़ सत्तर लाख उनसतर हजार अठ्ठासी सौ अठ्ठावन और पैसे चौबीस मांज)
क्रम क्रोड नं.: 19300044655, लखनऊ (एमएमएस मांग (शाखा), शिव कुमार समेना (उपचारकर्ता), प्रीति समेना (सह उपचारकर्ता 1)	दिनांक 16-06-2020 रु. 37,71,008/- (रु. तीस लाख इक्कतर हजार आठ मांज)	सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश निम्नका विस्तारित: ख नं. 163 के हिसरे पर लाल, गांव नौकौटल चंदना परमना मलौन नौसला, बीकैटी लखनऊ, उत्तर प्रदेश 226020	रु. 61,20,000/- (रु. इक्कड़ लाख बीस हजार मात्र)	रु. 6,12,000/- (रु. छठ लाख चार हजार मात्र)	रु. 81,60,441.11/- (रु. इक्कड़ लाख सत्तह हजार चार सौ इक्कड़सठ और पैसे ग्यारह मांज)
क्रम क्रोड नं.: 19300042870, लखनऊ (एमएमएस मांग (शाखा)), सत्य चंद्र 181 (उपचारकर्ता), सत्य चंद्र 181 (उपचारकर्ता), शोभा मनीष (सह उपचारकर्ता 1)	दिनांक 25-01-2019 रु. 18,50,062/- (रु. अठ्ठात्र लाख पचास हजार बासठ मांज)	सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश निम्नका विस्तारित: धरारा नं. 23 के हिसरे पर प्लॉट, एमए इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर परमना बिजनेस लक्ष्मी लखनऊ उत्तर प्रदेश 226002	रु. 22,50,000/- (रु. बीस लाख पचास हजार मात्र)	रु. 2,25,000/- (रु. दो लाख पचास हजार मात्र)	रु. 43,08,090.12/- (रु. बीसती लाख अठ्ठा हजार नव सौ और पैसे चारह मांज)
क्रम क्रोड नं.: 19300043486, लखनऊ (एमएमएस मांग (शाखा), मोहम्मद इदरहाथ एम (उपचारकर्ता), शोभादा पाप (सह उपचारकर्ता 1)	दिनांक 16-06-2021 रु. 15,87,394/- (रु. पंद्रह लाख सत्तरती हजार तीन सौ चौरावन मांज)	सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश निम्नका विस्तारित: प्लॉट नं. 1, धरारा नं. 286 निम्न, गांव अमराई, गांव - शहीद शासक सिंह गांव अमराई, लखनऊ उत्तर प्रदेश 226020	रु. 11,80,000/- (रु. ग्यारह लाख असी हजार मात्र)	रु. 1,18,000/- (रु. एक लाख अठ्ठात्र हजार मात्र)	रु. 27,07,729.8/- (रु. सत्तरस्र लाख सत्तह सत्तर सौ उनीस और पैसे असी मांज)
क्रम क्रोड नं.: 06000007764, लखनऊ (एमएमएस मांग (शाखा), नलानी कांत (उपचारकर्ता), मिनु सिंह (सह उपचारकर्ता 1)	दिनांक 08-10-2021 रु. 33,77,689/- (रु. तीस लाख सत्तर हजार छत्र सौ नवतीस मांज)	सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश निम्नका विस्तारित: प्लॉट नं. 39 और प्लॉट नं. 42 का हिस्सा, धरारा नं. 359 का हिस्सा, गांव- देवीपुरा, परमना तलसीली और जिला लखनऊ उत्तर प्रदेश 226020	रु. 32,00,000/- (रु. बीस लाख मात्र)	रु. 3,20,000/- (रु. तीन लाख बीस हजार मात्र)	रु. 59,66,852.67/- (रु. 59,66,852.67 लाख छियात्त हजार दो सौ असी और पैसे सत्तरस्र मांज)
क्रम क्रोड नं.: 06000006666, लखनऊ (एमएमएस मांग (शाखा)), बिबेक द्विवेदी (उपचारकर्ता), रुक्मी द्विवेदी (सह उपचारकर्ता 1)	दिनांक 25-01-2019 रु. 27,02,223/- (रु. सत्तरस्र लाख दो हजार दो सौ तेरह मांज)	सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश निम्नका विस्तारित: प्लॉट नं. 404 चौबीस और, एम. अपार्टमेंट नं. 19 और 19-ए, धरारा नं. 682 का हिस्सा, पानी गांव, सनमल्लान, लखनऊ, लखनऊ-226020	रु. 34,80,000/- (रु. बीसती लाख असी हजार मात्र)	रु. 3,48,000/- (रु. तीन लाख अठ्ठातीस हजार मात्र)	रु. 75,30,629.92/- (रु. पचास लाख तीस हजार छत्र सौ उनीस और पैसे असी मांज)
क्रम क्रोड नं.: 24000003510, कानपुर (शाखा), अरविंद कुमार पाल (उपचारकर्ता), सोनिका पाल (सह उपचारकर्ता 1)	दिनांक 22-02-2022 रु. 25,45,297/- (रु. पचास लाख बीसती हजार दो सौ सत्तार मांज)	सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश निम्नका विस्तारित: प्लॉट नं. 7 और प्लॉट नं. 8 अरुजी नं. 783, बरसेली, कानपुर कानपुर शहरी उत्तर प्रदेश-208001	रु. 59,90,000/- (रु. उन्नास लाख नव सत्तह हजार मात्र)	रु. 5,99,000/- (रु. पांच लाख निम्नाने सत्तार मात्र)	रु. 31,53,430.02/- (रु. 31,53,430.02 लाख तीस हजार चार सौ तीस और पैसे दो मांज)

**ई-नीलामी की तिथि:** 28-01-2026 को प्रातः 11.00 से अर्धरात्रि 1.00 बजे तक (5 मिनट के प्रत्येक अर्धमिनट विस्तार के साथ), चौबीस का करण की अंतिम तिथि : 27-01-2026 को 4.00 बजे या उससे पहले

नियम के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपया [www.jmfinancialarc.com/Home/Assetsforsale](http://www.jmfinancialarc.com/Home/Assetsforsale) या <https://www.bankauction.in> पर उपलब्ध लिंक का संचर्न करें

**चक्रवर्ती/गारंटर / चक्रवर्ती हेतु सरफेसी अधिनियम के अंतर्गत 15 दिवसीय सार्वजनिक विक्रय सूचना**

उपरोक्त उल्लिखित क्रयकर्ताओं / गारंटरों को एलन द्वारा सूचित किया जाता है कि वे बारा 13(2) के अंतर्गत निम्न सूचना में उल्लिखितानुसार राशि का नीलामी की तिथि से पूर्व निम्न तक उपस्थित ब्याज के साथ वृद्धि कर देना है। प्रस्ताव करने पर संपत्ति को नीलामी / विक्री करी जायेगी और कोई भी, जो वृद्धि करकर्ता/गारंटर से ब्याज व मांग के संबंध में सहाय की मांग करेगा

दिनांक: 07-01-2026, स्थान: न.पू.सी/चौकी

हस्ता/- (प्रमाणित अधिकारी) (अरएम - ट्रस्ट)



**डीएमआई हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड**

एनबीडी हाउस, मुंबई भावन, इंदिरा तल, 6, बालुआ हाउस एफए, नई दिल्ली - 110002  
दूरभाष: +91-